

## प्रेस नोट दिनांक-09.09.2021

(1). आज दिनांक 09.09.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा पुलिस कार्यालय में जनपद के दूर दराज ग्रामों से आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुना गया तथा उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले फरियादियों को बताया गया कि आप अपनी शिकायत मो0नं0 8810747614 वीडियो कॉलिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, आप लोगों को दूर दराज से यहां तक नहीं आना पड़ेगा, आपकी शिकायत वीडियो कॉलिंग पर ही सुन ली जायेगी तथा निस्तारण कराया जायेगा, जिससे आप लोगों को समय की तथा आर्थिक बचत होगी।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी श्री रामाश्रय यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजोल नागर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त (1) हरिश्चन्द्र (2) मनोज कुमार पुत्रगण चुन्ना सिंह निवासीगण तौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 27 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 122/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राजोल नागर थाना पहाड़ी
2. आरक्षी दिनेश कुमार यादव
3. आरक्षी पवन डांगी

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह थाना मानिकपुर तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 103/2021 धारा 354क/354घ/341/506/509 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त अमन अग्रहरी पुत्र कृष्ण कुमार निवासी बाल्मीकि नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट तथा मु0अ0सं0 102/21 धारा 332/353/336/504/506 भादवि0 अभियुक्त श्यामलाल पुत्र रामआसरे निवासी पनगरा थाना नैनी जनपद बांदा हाल निवास इन्द्रा नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

### गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह थाना मानिकपुर
2. आरक्षी रविन्द्र
3. आरक्षी शुभम

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुण्डी श्री प्रमोद कुमार के नेतृत्व में थाना मारकुण्डी पुलिस एवं पीएसी की संयुक्त टीम द्वारा जमुनिहाई एवं अमरावती के जंगलों में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा श्री दीनदयाल सिंह के नेतृत्व में थाना बहिलपुरवा पुलिस एवं पीएसी की संयुक्त टीम द्वारा ददरीमाफी के जंगलों में कॉम्बिंग की गयी।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में परिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती अन्जू देवी पत्नी अजीत विश्वकर्मा निवासी पटोरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा अपने पति अजीत विश्वकर्मा पुत्र केदार विश्वकर्मा निवासी पटोरी थाना मऊ एवं ससुरालीजनों द्वारा मारपीट एवं गाली गलौच करने एवं दहेज प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र में महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर, समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा। इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनांक 09.09.2021 को आपस में सुलह की गयी। सुलह होने पर दोनों पक्षों को आपस में सामन्जस्य बिठाकर सही प्रकार से आपस में मिलजुलकर रहने तथा पति पत्नी के कर्तव्यों को निर्वाहन करने की सलाह दी गयी।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना बरगढ़ श्री रविप्रकाश के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त अनिल कुमार विश्वकर्मा पुत्र शंकरलाल विश्वकर्मा निवासी टकटई जनहवा थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज को 01 अदद तमंचा 12 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 56/2021 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

**बरामदगी:-**

1. 01 अदद तमंचा 12 बोर
2. 02 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

**बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-**

1. उ0नि0 श्री सिद्धनाथ राय थाना बरगढ़
2. आरक्षी करन सिंह
3. आरक्षी नरसिंह राव

(7). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान 3.0 के अन्तर्गत श्री धवल जायसवाल पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 09.09.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा कस्बा राजापुर, लूप लाइन एवं तुलसी मंदिर भ्रमण कर, एंटी रोमियो स्क्वायड कोतवाली कर्वी द्वारा कोठी तालाब, ट्रैफिक चौराहा, पटेल तिराहा, एसडीएम कॉलोनी में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा ग्राम बांधी में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चकरेही चौराहा, कसहाई रोड, बल्दाऊगंज में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा चन्द्रेश इंटर कॉलेज बरगढ़, इंडियन बैंक व कस्बा बरगढ़ में, एंटी रोमियो टीम थाना पहाड़ी द्वारा बिसण्डा रोड, बाजार, बैंक कस्बा पहाड़ी में, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा ग्राम भारतपुर में सरस्वती भरत मंदिर स्कूल छात्राओं के साथ गोष्ठी की गयी एवं स्कूल में लगी शिकायत पेटिका को महिला आरक्षी द्वारा चेक किया गया, एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा कस्बा मानिकपुर में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा दीपूकोलान एवं कस्बा मारकुण्डी में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूक किया। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारे में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया।